



HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office : R-815, (B-11), New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Email : hillridgeinvest@gmail.com, Website : hillridgeinvestments.in, CIN : L65993DL1980PLC010757
Tel. : +91-11-28744604, Mob. : +91-9891095232

Date: 24-10-2019

To,
Department of Corporate Services
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,
Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400098

Sub: - Submission of Newspaper Clipping of Advance Notice for the Board Meeting as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Symbol-HILLRIDGE).

Dear Sir,

With reference to the above mentioned subject, please find attached herewith the copies of Newspapers- Dainik Mahalakshmi Bhagyodaya (Hindi News Paper) and Money Makers (English Newspaper) dated **24th October, 2019** in which the notice of Board Meeting has been published.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

Thanking You,
Yours Faithfully,

**For and on behalf of
HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED**



Anuradha
(Company Secretary cum Compliance Officer)

Place: New Delhi

MM EDIT

The Brexit drama shows no signs of ending

Britain's efforts to leave the European Union (EU) have taken on all the aspects of the kind of long-running stage farce for which the British are famous. But this one has huge implications not only for Britain but also global reverberations. British Prime Minister Boris Johnson took office promising tough negotiating tactics to bring back a better Brexit deal than the one that his predecessor Theresa May managed. The success of his attempts can be judged from the fact that till Monday he had built up an unblemished record since he took the country's top job in July of losing every single vote held in Parliament. He should, under normal circumstances, have had the keys of No 10 Downing Street taken away from him by now. On Monday the government released the details of the 115-page Withdrawal Agreement Bill (WAB) and demanded that MPs should give the government the green signal on it by a Tuesday-night vote. On Thursday it hopes to turn the Bill into legislation to leave the EU by October 31, an extraordinarily tight timetable. MPs are furious that they were given barely 12 hours to scrutinise the complex proposals on everything from the environment to workers' rights and the Northern Ireland border.



The Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Bhupesh Baghel calling on the Union Minister for Defence, Shri Rajnath Singh, in New Delhi.

Uber Technologies will not dial down on its food delivery service-Uber Eats in India

MM BUREAU

New Delhi/October 23

Uber Technologies will not dial down on its food delivery service, Uber Eats, in India despite lagging market leaders Zomato and Swiggy, a senior executive at the San Francisco-based company told Media. "It's very early days for food, and I don't think anyone has figured it out globally. Solving for a three-sided marketplace is a complex problem, and it will take a few cycles for the market to mature," said Manik Gupta, chief product officer of Uber. India is one of the fastest growing markets for food delivery in the Asia Pacific region, he added.

Gupta's comments come less than a month after ET reported that the New York Stock Exchange-listed mobility giant had restructured its corporate holdings and brought its India business, including food



delivery, under Uber India Systems.

They also came amid CEO Dara Khosrowshahi's admission to analysts recently that UberEats was a distinct third in the food delivery space in India, and talks of a deal with multiple players, including Swiggy and Amazon, to sell its food delivery arm falling through. Earlier this month, ET reported that Uber's food delivery service has seen significant churn in leadership, with two top executives — India chief Bhavik Rathod and head of central operations, Deepak

Reddy — resigning.

"India constitutes about 12% of trips or transactions of Uber's global volume, and is a very strategic market for us," Gupta said, adding that from an India perspective, Uber Eats is growing very substantially.

Uber, which had a market capitalisation of \$53.4 billion as of Tuesday, is also investing substantial resources in its grocery delivery business. Gupta did not specify a definite timeline for that in India, but the company is expected to evaluate the local market.

"We haven't made any decisions in terms of when we are going to do it, but it is definitely an area we are looking at, at the corporate level," Gupta said. Uber's potential entry into the segment in Asia's third-largest economy will follow that of online retail giants Amazon and Walmart-

Govt and industry must collaborate for digitisation, modernisation of kirana stores : Deloitte

MM BUREAU

New Delhi/October 23

The government and industry must collaborate for digitisation and modernisation of kirana stores as they are major part of the Indian retail sector, according to a Deloitte report.

It said traditional and modern retail, including e-commerce, have their own merits that must be integrated to provide a common platform. As retail markets are evolving from 'bricks-and-clicks' to an intermix model, the brands must use multiple channels to ensure a seamless shopping experience for consumer across all channels, the report added. "Kirana stores form a major part of the Indian retail and will continue to do so in the near future. Thus, the government and the industry must collaborate for their digitisation and modernisation," the report added. It also said there is a need to focus on rural markets as overlooking of non-urban centres may lead



to undesirable results. "The strategies must be devised to cater to the demands of all the target segments," it said adding brands need to invest in modern technology, including IoT, artificial intelligence and data analytics throughout the value chain to effectively engage with customers. Further, it said that personalised advertisements, and leveraging modern

technologies can help brands in the retail sector to engage effectively with their consumers. "Social media sites, company websites, blogs, emails, phone calls and texts, in-store communications, and other physical and online touch points should be used," it added. Another major trend is need for the vernacular content to cater to the consumers' needs, the Deloitte-Ficci report said.

CAIT urges PM not to yield ground to Walmart

MM BUREAU

New Delhi/October 23

Traders' body CAIT on Tuesday urged Prime Minister Narendra Modi not to concede any ground to Walmart and other overseas e-commerce players, saying such firms have no regard for the sanctity of Indian laws and policies. Confederation of All India Traders (CAIT) wrote to the Prime Minister after Walmart CEO Doug McMillon raised issues concerning data privacy and regulatory stability for the e-commerce sector and urged Modi to reduce the number of licences and permits for the opening of new stores. Global retail giant Walmart, which has invested USD 16 billion in Flipkart, is facing challenges after the foreign direct investment rules for e-commerce marketplaces were changed by the government through a revised policy on FDI in online retail. In the letter, CAIT Secretary General Praveen Khandelwal said: "These kind of rhetorics by global players are nothing but a pressure tactic to find a headway into the large existing business potential of India's Rs 45 lakh crore retail market..." He also accused e-commerce firms of attempting to directly control India's economy by indulging in 'unfair and monopolistic' business practices. "We urge you not to concede any ground to these unscrupulous corporates or buckle to the pressure which they are attempting to create for their own personal gains by disregarding the sanctity of India's well defined laws and policies," Khandelwal said. He exuded confidence that the Prime Minister will prioritise the interests of seven crore traders across the country and ensure that these foreign companies comply strictly with the laws and policies of the government in letter and spirit.

India Inc's deal activity falls to \$6,025 million in July-Sep quarter

MM BUREAU

New Delhi/October 23

Corporate India's merger and acquisition activity in the July-September quarter witnessed a downtrend with total deal value falling by more than half over the last year, largely owing to a slump in economic activity and lack of big ticket deals, says a report.

According to Grant Thornton's quarterly M&A Dealtracker 2019, in the third quarter of this year, corporate India announced deals worth USD 6,025 million through 97 deals against 134 such transactions worth USD 13,185 million in the same period of the last year.

"Despite the government's effort to revive sentiments, market performance remained muted due to global and domestic growth concerns. There was a steep

decline in the M&A deal activity in third quarter 2019 with total values dropping by more than half as compared to Q3 2018, largely driven by a 71 per cent fall in cross-border deal values," Pankaj Chopda, director of Grant Thornton India LLP said.

The third quarter of this year was dominated by M&A deals in the IT and ITeS sector, pushed by consolidation in the software development and IT solutions segment, the report said.

Further, core sectors like energy, infra, banking, pharma and manufacturing have succeeded in executing high value deals with a view to build synergies, pare debt, for inorganic expansion, market capitalisation and divestment of non-core businesses amid stiff competition and uncertainties, it added.

Similar to deal values,

number of deals also witnessed a 28 per cent fall on the back of 37 per cent fall in domestic M&A deals. During the January-September period, deal activity continued to witness weak performance both in terms of deal volumes and values as compared to the corresponding period last year. There were 322 M&A transactions worth USD 23,716 million in the first nine months of this year, while in the same period last year there were 367 such deals worth USD 77,829 million.

"Regardless of this drop, it is encouraging to witness a steady pipeline of deals pushed by distressed asset acquisitions, acquisitions to accelerate topline growth through new and attractive market segments and new capabilities, and divestment of non-core assets or businesses, particularly in capital-intensive industries."



The Minister for Municipal Administration and Rural Development of Tamil Nadu, Shri S.P. Velumani calling on the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, in New Delhi.

ANAND PROJECTS LIMITED

Regd. Office: SF 001 & 035, Second Floor, Ansal Fortune Arcade, Sector 18, Noida 201301, Uttar Pradesh
Web Site: www.anandprojects.com, Phone No - 0120-2511389,
CIN: L40109UP1936PLC048200

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTH ENDED SEPTEMBER 30, 2019

Particulars	Quarter Ended	Six Month Ended	Quarter Ended
	30 Sept. 2019	30 Sept. 2019	30 Sept. 2018
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	-	-	142.52
Net Profit for the period before tax	(42.86)	84.87	108.78
Net Profit for the period after tax	(22.10)	70.09	78.51
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(22.10)	70.09	78.51
Equity Share Capital (Face value of '10/- per share)	93.43	93.43	93.43
Other equity / Other Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year			
"Earnings Per Share (of '10/- each) (Not Annualised)"			
1. Basic:	(2.37)	7.50	8.40
2. Diluted:	(2.37)	7.50	8.40

* The Company does not have any exceptional item and extraordinary item to report for the above periods.

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company website www.anandprojects.com. (Email id- companysecretary@anandprojects.com).
- Results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs.
- Figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on October 23, 2019.

For and on behalf of the Board of Directors of
Anand Projects Limited

Sd/-
Om Parkash Verma
Director
DIN - 07411027

Place: Noida
Date: October 23, 2019

Urban Ladder co-founder Rajiv Srivatsa quits

MM BUREAU

New Delhi/October 23

Urban Ladder's chief operating officer Rajiv Srivatsa is leaving the company, eight years after he co-founded the online furniture retailer with fellow IITian Ashish Goel. "The last 8 years have been an outstanding journey building Urban Ladder (UL). I will transition out of my active leadership role as CTO at UL at the end of this month," Srivatsa said in a LinkedIn post. "I will continue to be an engaged shareholder and Board member, and work with Ashish on strategic initiatives." Srivatsa is leaving barely months after Ajit Joshi, its president, quit in April. Urban Ladder had disbanded some verticals and laid off hundreds of people at the time, according to sources. Urban Ladder had also restructured its business, including moving towards a lower price point to stay competitive, laying off a fourth of its workforce, and shutting down high-cost initiatives like cash on delivery.

ABHIJIT TRADING CO LTD

CIN: L51900DL1982PLC201705
Regd. Off: 16/121-122, Jain Bhawan, Faiz Road,
W.E.A Karol Bagh, New Delhi-110005.
Email Id- abhijittrading@gmail.com
Website- www.abhijittrading.in, Ph: 011-23637497

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 05th November, 2019 at 10:00 A.M.** at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PTI) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.abhijittrading.in and also on the website of BSE Ltd www.bseindia.com.

By order of the Board
For ABHIJIT TRADING CO LTD
Sd/-
Vinod Jain
(Managing Director)
DIN: 00530078

Place: New Delhi
Date: 23.10.2019

MACOR PACKAGING LIMITED

CIN: L74990DL1996PLC018495
Regd. Off: 219/75, 4th Floor, Gali No. 1, Sangatsarhan,
Pahar Ganj, New Delhi-110055.
Email Id: macorpackaging@gmail.com
Website: www.macorpackaging.in, Ph: 011-23589669

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Saturday, 02nd November, 2019 at 11:00 a.m.** at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Standalone financial results for the half year ending on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PTI) Reg. 2015 in Ref. No. ISE/OML/2019/11.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.macorpackaging@gmail.com and also on the website of BSE Ltd www.bseindia.com.

By order of the Board
For MACOR PACKAGING LIMITED
Sd/-
Deepak Kumar Bhujia
Managing Director
DIN: 06933359

Place: New Delhi
Date: 23-10-2019

AVAIL HOLDING LIMITED

CIN: L67190DL1985PLC020953
Regd. Off: 209, Shant Nagar II, 3 D B Gupta Road,
New Delhi-110095.
Email Id: availholding@gmail.com
Website: www.availholding.in, Ph: 011-23682393

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, 1st November, 2019 at 03:00 P.M.** at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PTI) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.availholding.in and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For Avail Holding Limited
Sd/-
Deepak Vyas
Managing Director
DIN: 0270361

Place: New Delhi
Date: 23-10-2019

SITAL LEASING AND FINANCE LIMITED

CIN: L69109DL1992PLC016493
Regd. Off: 10/10, 22, 3rd Floor, 25, Phase, Commercial Complex,
Haridwar Centre, Sector-5, Greater Noida
Corporate office 10/12-122, Jain Bhawan, Faiz Road, New Delhi-110005
Email Id: sitalleasingandfinance@gmail.com, Contact No.: 0800463231

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 05th November, 2019 at 04:00 P.M.** at the corporate office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PTI) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.sitalleasingandfinance.com and also on the website of MSEI Limited www.mseil.in.

By order of the Board
For Sital Leasing And Finance Limited
Sd/-
Nishu Jain
Company Secretary cum
Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: 23.10.2019

HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65930DL1980PLC010757
Regd. Off: R-815, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.
Email Id: hillridgeinvest@gmail.com
Website: www.hillridgeinvestments.in, Ph: 011-28745004

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 5th November, 2019 at 11:30 P.M.** at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PTI) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.hillridgeinvestments.in and also on the website of MSEL Ltd www.msel.in.

By order of the Board
For Hillridge Investments Limited
Sd/-
Anuradha
Company Secretary
Cum Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 23.10.2019

SNS DIAGNOSTICS LIMITED

CIN: L74890DL1983PLC016371
Regd. Off: Room No. 106, First Floor, 216/7C-10A,
Gurgaon Nagar, Main Patel Road, New Delhi-110008
Email Id: snsdiagnostics@gmail.com
Website: www.snsdiagnostics.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Friday, 1st November, 2019 at 12:00 P.M.** at the registered office of the Company to consider and approve the unaudited Financial Results for Quarter and half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business with the permission of the Chairman, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PTI) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.snsdiagnostics.in and also on the website of MSEL Ltd www.msel.in.

By order of the Board
For SNS Diagnostics Limited
Sd/-
Dharmendra Gupta
Managing Director
DIN: 07543296

Place: New Delhi
Date: 23.10.2019

INDIA STUFFYARN LIMITED

CIN: L51900DL1985PLC021270
Regd. Off: 555, Double Storey, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Corporate office: 10/12-122, Jain Bhawan, Gali No.5,
Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
Email Id: indiastuff yarn@gmail.com, Website: www.indiastuff yarn.in, Ph: 011-28742994

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, 01st November, 2019 at 01:00 P.M.** at the Registered office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 29-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PTI) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.indiastuff yarn.in and also on the website of MSEL Limited www.msel.in.

By order of the Board
For India Stuffyarn Limited
Sd/-
Bharat Bhusan
Managing Director
DIN: 00538006

Place: New Delhi
Date: 23.10.2019

SUNSHINE CAPITAL LIMITED

CIN: L69900DL1994PLC000154
Regd. Off: 209 Bhawan Plaza II, 3 D B Gupta Road, New Delhi-110095
Corporate office: 10/12-122, Jain Bhawan, First Floor, Faiz Road,
W.E.A Karol Bagh, New Delhi-110005
Email Id: sunshinecapital@gmail.com
Website: www.sunshinecapital.in, Ph: 011-23582393

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, November 5th, 2019 at 02:30 p.m.** at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of Audited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PTI) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.sunshinecapital.in and also on the website of BSE Ltd www.bseindia.com.

By order of the Board
For Sunshine Capital Limited
Sd/-
Aparna Chaturvedi
Company Secretary cum
Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 23.10.2019



छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की।

प्रयाग फैक्ट्री की गाड़ी काशीपुर में दुर्घटनाग्रस्त हेल्पर की मौत पर फैक्ट्री में हंगामा

महालक्ष्मी व्यूरो
बरेली, 23 अक्टूबर
फरीदपुर के प्राइमर मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड (प्रयाग) फैक्ट्री से दूध लेकर जा रही गाड़ी उत्तराखंड के काशीपुर में पेड़ से टकरा गई। दूध की गाड़ी में बैठे फरीदपुर के अंधरपुरा शंकरपुर के हेल्पर की मौके पर मौत हो गई। फैक्ट्री के ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर को छुड़वाकर हादसे की सूचना परिजनों को नहीं दी। काशीपुर पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजन पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव लेकर अपने घर लौटे। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन के साथ ट्रांसपोर्टर के खिलाफ नारेबाजी कर प्रयाग फैक्ट्री के गेट पर हेल्पर का शव रखकर प्रदर्शन किया। कई घंटे समझाने के बाद भी परिवार के लोगों ने हेल्पर का शव नहीं हटाया।

फरीदपुर के अंधरपुरा शंकरपुर गांव में हाईवे से सटी प्राइमर मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड(प्रयाग) के नाम से दूध फैक्ट्री है। फैक्ट्री से दूध उत्तराखंड को टैंकरों से सप्लाई किया जाता है। फैक्ट्री में लगे एक टैंकर पर फरीदपुर के गांव अंधरपुरा शंकरपुर के अतेंद्र (28) पुत्र चंद सेन हेल्पर का काम करते थे। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम अतेंद्र दूध से भरा टैंकर लेकर उत्तराखंड के काशीपुर जा रहे थे। काशीपुर में हाईवे पर दूध से भरा टैंकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हेल्पर की मौके पर मौत हो गई। जबकि ड्राइवर को खरोंच भी नहीं आई। काशीपुर पुलिस ने ट्रांसपोर्टर को सूचना दी। ट्रांसपोर्टर ने अपने ड्राइवर को काशीपुर पहुंचकर छुड़ा लिया। काशीपुर पुलिस ने



हेल्पर का शव पोस्टमार्टम को भेज कर परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिवार के लोग रोते बिलखते हुए काशीपुर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद काशीपुर पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया। हेल्पर के परिवार के लोग शव लेकर फरीदपुर पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन और उसके ट्रांसपोर्टर को दोषी ठहराते हुए बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला लिया। इसके बाद गांव के सैकड़ों लोग शव लेकर फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फरीदपुर के कोतवाल धनंजय सिंह पुलिस टीम के साथ

काशीपुर पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजन पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव लेकर अपने घर लौटे। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन के साथ ट्रांसपोर्टर के खिलाफ नारेबाजी कर प्रयाग फैक्ट्री के गेट पर हेल्पर का शव रखकर प्रदर्शन किया। कई घंटे समझाने के बाद भी परिवार के लोगों ने हेल्पर का शव नहीं हटाया। फरीदपुर के अंधरपुरा शंकरपुर गांव में हाईवे से सटी प्राइमर मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड(प्रयाग) के नाम से दूध फैक्ट्री है। फैक्ट्री में लगे एक टैंकर पर फरीदपुर के गांव अंधरपुरा शंकरपुर के अतेंद्र (28) पुत्र चंद सेन हेल्पर का काम करते थे।

मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। पुलिस ने ट्रांसपोर्टर और फैक्ट्री प्रबंधन को बुलाकर वार्ता शुरू की। दोपहर तक शव फैक्ट्री गेट पर रखकर फैक्ट्री प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर अड़े थे। पुलिस उन्हें

समझाने की कोशिश कर रही थी। हेल्पर के परिजनों का आरोप है कि हादसे में ड्राइवर को खरोच भी नहीं आई। जबकि उनके बेटे की मौत हो गई। रात भर हादसे की सूचना ट्रांसपोर्टर और फैक्ट्री प्रबंधन नहीं दी उन्होंने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया।



तमिलनाडु के नगरपालिका प्रशासन और ग्रामीण विकास मंत्री, श्री एस.पी. वेलुमनी केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती नर्मला सीतारमण से मिलते हुए।

शहर की शादियों में डीजे पर लगा बैन

हमारे संवाददाता
नोएडा, 23 अक्टूबर
नोएडा जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर शादियों में डीजे बजाने पर रोक लगा दी है। डीजे संचालकों से एडवांस बुकिंग के रुपये को तत्काल वापस करने और नई बुकिंग न करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सोमवार को सेक्टर-6 स्थित एसपी सिटी कार्यालय में डीजे संचालकों की बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण कानून के मानकों के विपरीत तेज ध्वनि वाले संयंत्रों को बजाने पर पूर्णतया रोक है। इसलिए जिले में किसी भी शादी, मांगलिक कार्य और पार्टी इत्यादि में डीजे बजने और एसपी सिटी अशोक कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर एक बजे डीजे संचालकों के साथ बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि डीजे एक हजार डेसीबल से अधिक की आवाज करता है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है।

ANAND PROJECTS LIMITED			
Regd. Office: SF 001 & 035, Second Floor, Ansal Fortune Arcade, Sector 18, Noida 201301,Uttar Pradesh Web Site: www.anandprojects.com, Phone No - 0120-2511389, CIN: L40109UP1936PLC048200			
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTH ENDED SEPTEMBER 30, 2019			
Particulars	Quarter Ended 30 Sept. 2019 Unaudited	Six Month Ended 30 Sept. 2019 Unaudited	Quarter Ended 30 Sept. 2018 Audited
Total Income from Operations	-	-	142.52
Net Profit for the period before tax	(42.86)	84.87	108.78
Net Profit for the period after tax	(22.10)	70.09	78.51
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(22.10)	70.09	78.51
Equity Share Capital (Face value of ` 10/- per share)	93.43	93.43	93.43
Other equity / Other Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year			
"Earnings Per Share (of ` 10/- each) (Not Annualised)"			
1. Basic:	(2.37)	7.50	8.40
2. Diluted:	(2.37)	7.50	8.40
* The Company does not have any exceptional item and extraordinary item to report for the above periods.			
Notes:			
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website, www.bseindia.com and on the Company website www.anandprojects.com. (Email id- companysecretary@anandprojects.com).			
2) Results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs.			
3) Figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.			
4) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on October 23, 2019.			
For and on behalf of the Board of Directors of Anand Projects Limited Sd/- Om Parkash Verma Director DIN - 07411027			
Place: Noida Date: October 23, 2019			

चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने वाले सभी आरोपी जेल में ही मनाएंगे दिवाली

महालक्ष्मी व्यूरो
शाहजहांपुर, 23 अक्टूबर
पूर्व केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद और उनके रंगदारी मांगने वाले सभी चार लोगों की दिवाली इस बार जेल में ही मनेगी। यह और बात है कि एक ही जेल में रहते हुए, चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने वालों का आमना सामना नहीं होता है, लेकिन दिवाली की पूजा एक साथ ही की जाती है। ऐसे में चिन्मयानंद और अन्य आरोपी दिवाली की पूजा में एक साथ खड़े दिख सकते हैं। छात्रा की जमानत पर अब सुनवाई छह नवंबर को हाईकोर्ट में होगी। चिन्मयानंद की जमानत अर्जी दीपावली बाद दी जाएगी। संजय, विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी अभी लिस्टेड नहीं

हुई है। इस तरह से चिन्मयानंद और रंगदारी के आरोपियों की जमानत अब दीपावली से पहले होना संभव ही नहीं है। वैसे तो जेल में सभी आरोपी अलग-अलग बैरकों में रहते हैं। एक-दूसरे से आमना-सामना भी नहीं होता है। पर इस बार दीपावली पर सभी एक साथ खड़े होकर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करेंगे। यह बात अलग है कि जेल प्रशासन उन सभी आरोपियों को दूर-दूर खड़ा रखे। चिन्मयानंद के खिलाफ अलग से दुराचार का मुकदमा दर्ज कराने के लिए मंगलवार को भी हाईकोर्ट में छात्रा की ओर से चक्की ले प्रार्थना पत्र दिया। इस पर एसआईटी की ओर से आईपीएस अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट

को बताया कि छात्रा ने दिल्ली में 12 पन्नों का जो प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र को भी विवेचना में शामिल कर केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है, इसलिए एक ही बिंदु पर दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की सकती है। इस पर छात्रा के वकील रवि किरन जैन ने कहा कि उन्हें क्या पता कि छात्रा के प्रार्थना पत्र को केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है या नहीं, क्योंकि केस डायरी तो अभी तक देखने को भी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने एफआईटी से कहा कि अगली बार जब 28 नवंबर को तीसरी स्टेटस रिपोर्ट दें तो साथ में यह शपथ पत्र भी दाखिल करें कि छात्रा की शिकायत को केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है।

ABHIJIT TRADING CO LTD CIN: L5190DL1982PLC241785 Regd. Off: 209, Bhanot Plaza II, 3 D B Gupta Road, W.E.A Karol Bagh, New Delhi-110005. Email Id: abhijittrading@gmail.com Website: www.abhijittrading.in, Ph: 011-23637497 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 05th November, 2019 at 10:00 A.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for quarter and half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Companies in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.abhijittrading.in and also on the website of BSE Ltd www.bseindia.com. By order of the Board For ABHIJIT TRADING CO LTD Sd/- Virendra Jain (Managing Director) DIN: 00530078 Place: New Delhi Date: 23-10-2019	AVAIL HOLDING LIMITED CIN: L57190DL1985PLC202953 Regd. Off: 209, Bhanot Plaza II, 3 D B Gupta Road, New Delhi-110005. Email Id: availholding@gmail.com Website: www.availholding.in Ph: 011-23637497 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 1st November, 2019 at 02:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial results for the half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Companies in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.availholding.in and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in. By order of the Board For Avail Holding Limited Sd/- Deepak Tyagi Managing Director DIN: 02760351 Place: New Delhi Date: 23-10-2019	SITAL LEASING AND FINANCE LIMITED CIN: L74950DL1983PLC018459 Regd. Off: 118/119, 4th Floor, Gali No. 1, Sangtarashan, Pahar Ganj, New Delhi-110055. Email Id: sitalleasing@gmail.com Website: www.sitalleasingfinance.com, Contact No. 880046357 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 02nd November, 2019 at 11:00 a.m. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Standalone financial results for the half Year ending on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.sitalleasingfinance.com and also on the website of MSEI Limited www.mseil.in. By order of the Board For Sital Leasing And Finance Limited Sd/- Nishu Jain Company Secretary Compliance Officer Place: Gurugram Date: 23-10-2019
---	--	---

एसटीएफ के एसएसपी राजीव नारायण मिश्रा ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात को पश्चिमी उग्र एसटीएफ (नोएडा यूनिट) और प्रतापगढ़ जिले की थाना रानीगंज पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए रानीगंज थाना क्षेत्र में आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। एसएसपी ने बताया कि कुछ देर बाद कुछ संदिग्ध लोग आते दिखाई दिए। उन्हें रुकने का इशारा किया गया।

रुपये का इनाम घोषित किया था। मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2003 में थाना कोतवाली प्रतापगढ़ के क्षेत्र में डकैती की एक वारदात हुई थी। तब बबलू ने डकैती डालते समय अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में वर्ष 2007 में अदालत ने इसे मिलकर तीन लोगों को दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई थी। सजा के समय से ही यह फरार चल रहा था। एसएसपी ने बताया कि कानपुर के थाना कल्याणपुर और थाना बिधूरा क्षेत्र में दो डकैती और हत्या के एक मामले में बबलू वांटेड था। उन्होंने बताया कि सहारनपुर जिले में पुलिस हिरासत से बबलू फरार हो गया था। उसके ऊपर मेरठ जिले के थाना सरधना में हत्या समेत डकैती के पांच मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बबलू के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा तथा कारतूस आदि बरामद हुए हैं।

यूपी : बरेली में सीजन के पहले कोहरे ने दी दस्तक

बरेली, 23 अक्टूबर (ह.स.)
बरेली में सीजन के पहले कोहरे ने बुधवार को दस्तक दे दी। सुबह पांच बजे तक मौसम साफ था फिर उसके बाद कोहरा छाना शुरू हो गया। इसके बाद देर तक कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सुबह सूर्य देवता के दर्शन भी काफी देरी से हो पाए। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग कोहरे को देखकर चौंक उठे। पिछले वर्ष कोहरा बिल्कुल नहीं रहने के कारण इस बार इतनी जल्दी कोहरे की संभावना नहीं थी। कोहरे के चलते वाहनों को हेड लाइट जलाकर सफर तय करना पड़ा। सुबह सुबह स्कूल जा रहे छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तमाम बच्चे तो गर्मी वाले कपड़े पहनकर ही स्कूल गए थे। उनको तेज सर्दी महसूस हुई। कोहरे को देखकर अब लग रहा है कि दीपावली तक सुबह-शाम की अच्छी सर्दी शुरू हो जाएगी। इस वर्ष जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ी है उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सर्दी भी लोगों की जमकर परीक्षा लेगी।

सात साल बाद मिलेगा बीएड का संशोधित परिणाम

आगरा, 23 अक्टूबर (ह.स.)
2012 में प्रवेश। रिकॉर्ड में 2013 में पढ़ाई पूरी। परिणाम जारी हुआ और फजीवांड़ा खुल गया। फजीवांड़ा खुलने के साथ ही हजारों छात्रों की किस्मत पर ताला लग गया। पिछले सात साल से हजारों छात्र डिग्री, मार्क्सशीट, वेरिफिकेशन के लिए परेशान हैं, लेकिन विवि कुछ भी नहीं देता। सात साल बाद विवि फजीवांड़े की जांच के बाद संशोधित परिणाम जारी करेगा। परिणाम जारी होने के बाद छात्रों के सत्यापन हो सकेगे और उन्हें डिग्री भी मिल सकेगी। बीएड 2013 के रिजल्ट में भी जमकर फजीवांड़ा हुआ। मामले के लिए जांच कमेटियों का गठन किया गया। विवि के शिक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं और रिजल्ट की जांच की गई। जांच के बाद एक-एक कर फजीवांड़ा खुलने लगा। सामने आया कि उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों को परिणाम में बदला गया था।

स्थापित 1835

सिंघात समस्याएं?

नई ताकत सेहत जवानी व उमंग के साथ विवाहित जीवन खुशीयों से बिताये शीघ्रपतन, नपुंसुक्ता, शुगर व निसंतान दम्पत्ति निराश न हों इलाज के लिए अभी फोन करें या मिलें।

अलताज द्वाखाना
दिल्ली-53

09999468085-09899509822

www.altaj.net

HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED CIN: L57190DL1982PLC010757 Regd. Off: R-415, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060. Email Id: hillridgeinvestments@gmail.com Website: www.hillridgeinvestments.in Ph: 011-23637497 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 5th November, 2019 at 11:30 P.M. at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.hillridgeinvestments.in and also on the website of MSEL Ltd www.msel.in. By order of the Board For Hillridge Investments Limited Sd/- Anuradha Company Secretary Cum Compliance Officer Place: New Delhi Date: 23-10-2019	INDIA STUFFYARN LIMITED CIN: L57190DL1982PLC021270 Regd. Off: 555, Double Storey, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060. Corporate office 167/2-122, Jain Bhawan, Gali No.5, Fazal Road, Karol Bagh, New Delhi-110005. Email Id: indiastuff yarn@gmail.com, Website: www.indiastuff yarn.in Ph: 011-28742694 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 01st November, 2019 at 01:00 P.M. at the Registered office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter and half-year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.indiastuff yarn.in and also on the website of MSEL Limited www.msel.in. By order of the Board For India Stuff yarn Limited Sd/- Bharat Bhushan Managing Director DIN: 00530006 Place: New Delhi Date: 23-10-2019
SNS DIAGNOSTICS LIMITED CIN: L74950DL1983PLC016371 Regd. Off: Room No. 106, First Floor, 216/27-10A, Guro Arjun Nagar, Main Patel Road, New Delhi-110008 Email Id: snsdiagnostics3@gmail.com Website: www.snsdiagnostics.in NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that, the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, 1st November, 2019 at 12:00 P.M. at the registered office of the Company, to inter alia, consider and approve the unaudited Financial Results for Quarter and Half year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business with the permission of the Chairman, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.snsdiagnostics.in and also on the website of MSEL Ltd www.msel.in. By order of the Board For SNS Diagnostics Limited Sd/- Dharmendra Gupta Managing Director DIN: 07543296 Place: New Delhi Date: 23-10-2019	SUNSHINE CAPITAL LIMITED CIN: L57190DL1982PLC00154 Regd. Off: 209 Bhanot Plaza 3 D B Gupta Road, New Delhi-110055 Corporate off: 167/2-122, Jain Bhawan, First Floor Fazal Road, W.E.A Karol Bagh New Delhi 110005. Email Id: sunshinecapital@gmail.com Website: www.sunshinecapital.in Ph: 011-23682393 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November 5th, 2019 at 02:30 p.m. at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the Insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 30-09-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of Audited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.sunshinecapital.in and also on the website of BSE Ltd www.bseindia.com. By order of the Board For Sunshine Capital Limited Sd/- Apoorva Chaturvedi Company Secretary cum Compliance Officer Place: New Delhi Date: 23-10-2019